

## UNSC और ब्रेटन वुड्स में सुधार

### प्रलिस के लयि:

[UNSC](#), ब्रेटन वुड्स, [संयुक्त राषट्र](#), [द्वतीय वशिव युद्ध](#), [IMF](#), [वशिव बैंक](#), [SDR](#), [WTO](#), [IGN](#)

### मेन्स के लयि:

UNSC और ब्रेटन वुड्स में सुधार

## चर्चा में क्यौं?

हाल ही में जापान के हरिशामि में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान [संयुक्त राषट्र महासचवि](#) ने [UNSC \(संयुक्त राषट्र सुरक्षा परिषद\)](#) और ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधारों का आह्वान कयि है जसिमें कहा गया है कवर्तमान आदेश पुराना, बेकार और अनुचति है ।

- कोवडि-19 महामारी और [रूस-युक्रेन संघर्ष](#) की वजह से आर्थिक अस्थरिता के कारण उक्त संस्थान वैश्विक सुरक्षा तंत्र के रूप में अपने मूल कार्य को पूरा करने में वफिल रहे हैं ।

## ब्रेटन वुड्स प्रणाली:

- परचिय:
  - ब्रेटन वुड्स प्रणाली वर्ष 1944 में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजति ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया एक मौद्रिक ढाँचा था । इसका उद्देश्य [द्वतीय वशिव युद्ध](#) के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में स्थरिता और सहयोग स्थापति करना था ।
  - ब्रेटन वुड्स समझौते ने दो महत्त्वपूर्ण संगठन बनाए- [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष \(IMF\)](#) और [वशिव बैंक](#) ।
    - वर्ष 1970 के दशक में ब्रेटन वुड्स प्रणाली को भंग कर दयि गया था । इसके बाद IMF और वशिव बैंक (ब्रेटन वुड्स संस्थान) दोनों ही [अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं](#) के आदान-प्रदान के लयि सुदृढ़ स्तंभ बने हुए हैं ।

## INTERNATIONAL MONETARY FUND

- Estd. - 1944 (UN Bretton Woods Conference following Great Depression 1930s)
- Headquarters - Washington, DC, USA
- Functions -
  - » Global financial assistance
  - » Facilitate international trade
  - » Financing for developing countries
  - » Promotion of exchange rate stability
- Member States - 190 (India a founding member)

India's FM is the ex-officio Governor on the Board of Governors of IMF

- Special Drawing Rights (SDR) -
  - » IMF's intl. reserve asset to supplement the official reserves of its member countries (not a currency)

Currencies in SDR Basket - \$, €, £, ¥ (Yen) and CN¥ (Renminbi)

- IMF Quotas -
  - » Reflects a member country's relative position in world economy (India - 2.75%)
  - » Denominated in SDRs
- Flagship Publications -
  - » World Economic Outlook
  - » Global Financial Stability Report
  - » Fiscal Monitor
  - » External Sector Report

## World Bank Group (WBG)

- Estd. - Same as IMF
- Headquarters - Washington, DC, USA

### 5 Institutions of WBG (estd.)

- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) aka World Bank (1944)
- International Finance Corporation (IFC) (1956)
- International Development Association (IDA) (1960)
- International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) (1966)
- Multilateral Guarantee Agency (MIGA) (1988)

Membership of IMF is a prerequisite for membership of IBRD

- Twin Goals of WBG -
  - » Ending extreme poverty by 2030
  - » Boosting shared prosperity of the poorest 40% of the population in all countries

### Functions

- Provide loans, credits, and grants
- Investment, advice, asset management to companies/govts.
- Low/No-interest loans to Low-income countries
- Settle investment-disputes
- Insure lenders/investors against political risks

- Member States - 189 (India a founding member of IBRD, IFC & IDA)
  - » Ending extreme poverty by 2030

India is not a member of ICSID; claims it biased towards developed countries

- Major Publications -
  - » Human Capital Index
  - » World Development Report

//

### ■ ब्रेटन-वुड्स संस्थानों में सुधार की आवश्यकता:

- इन संस्थानों ने अपने पहले 50 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हाल के दिनों में वे बढ़ती समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं
- असमानता, वित्तीय अस्थिरता और संरक्षणवाद के मामले फरि से उभर कर सामने आए हैं।
- जलवायु परिवर्तन और पारस्विक तनाव, बढ़ती आपदाएँ और साइबर सुरक्षा तथा महामारी जैसे नए खतरों के बीच विश्व को एक नए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे की आवश्यकता है।
- नधि आवंटन और अनयिमति विशेष आहरण अधिकार (SDR) में पक्षपात किया गया, IMF ने महामारी के दौरान SDR में 650 बलियिन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये।
  - 77.2 करोड़ लोगों की आबादी वाले G-7 देशों को 280 अरब डॉलर, जबकि 1.3 अरब लोगों की आबादी वाले अफ्रीकी महाद्वीप को केवल 34 अरब डॉलर दिये गए।

## संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

### परिचय:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है।
- UNSC में 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी सदस्य (P5) और 10 गैर-स्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिये चुने जाते हैं।
  - 5 स्थायी सदस्य (P5) हैं: **अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके।**
- भारत जो कविराज 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 की अवधि में परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रहा ने **8वीं बार** वर्ष 2021 में UNSC में प्रवेश किया तथा वर्ष 2021-22 की अवधि के लिये परिषद में गैर-स्थायी सदस्य बना।

### UNSC से संबंध मुद्दे:

- विकासशील देशों के लिये समस्याएँ उत्पन्न करना:**
  - विकासशील देश **नैतिक, शक्ति संबंधी और व्यावहारिक** जैसे तीन आयामों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
  - अमीर देशों के पक्ष में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय ढाँचे में एक प्रणालीगत और अनुचित पूर्वाग्रह "विकासशील वशिव के देशों में नरिशा" का भाव उत्पन्न कर रहा है।
- प्रतनिधित्व को सीमिति करना:**
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से अफ्रीका, साथ ही **भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका** जैसे देशों की अनुपस्थिति को **एक महत्त्वपूर्ण कमी** के रूप में देखा जाता है।
  - यह **महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों** के प्रतनिधित्व और वैश्विक मुद्दों पर **उनके दृष्टिकोण** को सीमिति करता है तथा जटिल एवं परस्पर संबंधित समस्याओं पर प्रभावी नरिणय लेने में बाधा उत्पन्न करता है।
- वीटो पावर का दुरुपयोग:**
  - P5 के पास UNSC में कालानुक्रमिक वीटो पावर है, जसि अलोकतांत्रिक होने और P5 में से किसी के असहमत होने पर महत्त्वपूर्ण नरिणय लेने की **परिषद की क्षमता को सीमिति करने के लिये आलोचना** का सामना करना पड़ा है।
  - कई लोगों का तर्क है कि **इस तरह के कुलीन नरिणय लेने वाले ढाँचे** मौजूदा वैश्विक सुरक्षा परदृश्य के लिये **उपयुक्त नहीं हैं।**

## इन मुद्दों के समाधान के उपाय:

### ब्रेटन वुड्स:

- तीन वैश्विक संस्थानों- IMF, WBG और **वशिव व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO)** को फरि से आकार देने एवं पुनर्र्जीविति करने की आवश्यकता है जहाँ:
  - IMF **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की सखत नगरानी** और वैश्विक संकटों पर उनके प्रभाव के साथ व्यापक आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रति करेगा।
  - पुनर्र्गठित वशिव बैंक समूह **स्थिरता, साझा समृद्धि और प्रभावी रूप से नरिजी पूंजी से लाभ** की प्राप्ति को प्राथमिकता देगा। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने एवं वित्ति के वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये इसे मलिकर कार्य करने की आवश्यकता।
  - नषिपक्ष व्यापार, त्वरति विवाद समाधान और आपात स्थिति में तीव्र प्रतिक्रिया** क्षमता के लिये एक सशक्त WTO की आवश्यकता है।
- व्यवधानों और राजनीतिक प्रभावों से बचने के लिये प्रणाली में **अधिक स्वचालित और नयिम-आधारित वित्तिपोषण तंत्र** विकसित करने की आवश्यकता है।
- SDR, वैश्विक प्रदूषण करों और वित्तीय लेन-देन आधारित करों से संबंधित मुद्दों का नयिमति आकलन** करने की आवश्यकता है।
  - यह उचित रूप से संरचित G-20 ब्रेटन वुड्स प्रणाली और अन्य संस्थानों के साथ इसके संबंधों को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

### संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

- शक्ति और अधिकार के विकेंद्रीकरण के साथ-साथ अफ्रीका सहति सभी क्षेत्रों के लिये समान प्रतनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यह सभी राष्ट्रों को अपने देशों में **शांति एवं लोकतंत्र से संबंधित मुद्दों को उठाने की** अनुमति देगा जो कि नरिणयन को अधिक भागीदारीपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाएगा।
- P5 देशों के विशेषाधिकारों को संरक्षित करने** के बजाय वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रति करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये **UNSC के अधिक लोकतांत्रिक एवं वैध शासन को सुनिश्चित** करने हेतु P5 तथा शेष वशिव के मध्य शक्ति को संतुलित करने के लिये तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- अंतर-सरकारी वार्ता (Intergovernmental Negotiation- IGN) प्रक्रिया**, जो UNSC में सुधार पर चर्चा करती है, को संशोधित किया जाना चाहिये और प्रगत में बाधा डालने वाली प्रक्रियात्मक रणनीति से बचना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र मॉडरक और वित्तीय सम्मेलन जसिमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिये समझौते किये गए थे, को कसि रूप में जाना जाता है? (2008)

- बांडुंग सम्मेलन
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन

- (c) वर्साय सम्मेलन  
(d) याल्टा सम्मेलन

उत्तर: (b)

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee- IMFC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2016)

1. IMFC वशिव अरथव्यवस्था से सरोकार रखने वाले वषियों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को उसके कार्य की दशिया पर सलाह देता है ।
2. IMFC की बैठकों में वशिव बैंक प्रेक्षक की भाँता भाग लेता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. "स्वरण ट्रांश" (रज़िरव ट्रांश) नरिदषिट करता है: (2020)

- (a) वशिव बैंक की ऋण व्यवस्था  
(b) केंद्रीय बैंक की कसिी एक क्ररयिा को  
(c) WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को  
(d) IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को

उत्तर: (d)

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा नमिनलखिति में से कसि अवधिके लयि चुने जाते हैं । (2009)

- (a) 1 वर्ष  
(b) 2 वर्ष  
(c) 3 वर्ष  
(d) 5 वर्ष

उत्तर: (b)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजयि । (मुख्य परीक्षा, 2015)

प्रश्न. वशिव बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त रूप से बरेटन वुड्स के नाम से जानी जाने वाली संस्थाएँ, वशिव की आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था की संरचना का संभरण करने वाले दो अंत: सरकारी स्तंभ हैं । पृष्ठीय रूप में वशिव बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की अनेक समान वशिषिटताएँ हैं, तथापि उनकी भूमिका, कार्य तथा अधशिष स्पष्ट रूप से भनिन हैं । व्याख्या कीजयि । (मुख्य परीक्षा, 2013)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)